

The Herald.

Wednesday, April 26, 1871.

Royal Marriage Act. which had been in operation since the days of George III., had been broken down, and the marriage of the Princess Louise with the Marquis of Lorne would seem to be the first instance since that happily abolished between Her Majesty and her subjects. It was pleasing to know that the marriage pure natural satisfaction to Her Majesty and her subjects at large.

All the members of the House spoke in support of the address, and it was unanimously adopted.

Thursday, April 27. A Bill to incorporate the Charlotvetown Skating Rink Company was read a third time and passed.

Friday, April 28. Hon. Col. Secretary, according to notice, submitted a resolution relative to the appointment of a Commissioner to inquire into several law reforms during the recess, with a view of having a Bill introduced next session, and after some discussion, it was adjourned.

A Bill was brought up from the House of Assembly by Hon. J. D. Davies, to establish a decimal system of currency in this island.

Friday, April 28. Hon. Col. Secretary, on moving for the Bill, spoke at considerable length in support of it, and described minutely the advantage it would be to the Colony.

Two Bills were brought up from the House of Assembly by Hon. J. D. Davies, viz: A Bill to amend the Act for the relief of unfortunate debtors, and a Bill to enable the Governor of Charlottetown to raise a certain sum of money for purposes therein mentioned.

Hon. Col. Secretary, on moving for the reading of the first named Bill, pointed out the defects and injurious tendency of the present bankruptcy law. Those who took advantage of it were not, as general rule, in business more than two or three years, and who, at the first reverse of fortune, instead of showing their business talents by endeavoring to retrieve their shattered fortunes, rushed into the court for protection.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Some very worthy and conciliatory, if not "able" man, found his way into last Thursday's *Patriot*, and managed to fill nearly a column of that paper with a curious collection of nonsense, abuse, and reckless misstatements. Who is he? Can it be possible that Mr. Laird has become so abused of Donal Currie as to make him utter such a libelous and untrue article? In the meantime, we might like to know what you go to school to learn how to write grammatically, if not with truth, courtesy and common sense, before we begin to appear in print.

This Donal creature, our readers must know, well, some time ago, a place in the Prothonotary's Office, from which he drew the annual sum of £150, and from which he was usually ejected. The object he drew to his office, the antecedents of the individual accounted satisfactorily for the motive power. Bred of sympathy from the public, excepting perhaps from David, who, indeed, owing to his own misfortunes, had little to spare, Donal planned a piece of retaliation.

There were grounds for this fear. Some regular descendants to think with the immigrants. One would think that a politician of M. Thiers' knowledge and experience, should be aware that a compromise with Socialists means the overthrow of every principle of order, and the establishment of lawlessness, anarchy and rapine.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

Some very worthy and conciliatory, if not "able" man, found his way into last Thursday's *Patriot*, and managed to fill nearly a column of that paper with a curious collection of nonsense, abuse, and reckless misstatements. Who is he? Can it be possible that Mr. Laird has become so abused of Donal Currie as to make him utter such a libelous and untrue article?

This Donal creature, our readers must know, well, some time ago, a place in the Prothonotary's Office, from which he drew the annual sum of £150, and from which he was usually ejected. The object he drew to his office, the antecedents of the individual accounted satisfactorily for the motive power.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

NEW READING ROOM.—The members of the Catholic Young Men's Literary Institute have, with the aid of generous friends, lately up and furnished the old Chapel, fitted up as St. Dunstan's Schools, for a Reading Room, which will be inaugurated on Monday evening next. My list by literary and musical entertainment, to which the friends of the institution are cordially invited. The Room should be attended and patronized by every Catholic man and boy in the community.

There are sometimes scenes in other Legislatures, besides that of this Island. During the late Session of the Dominion Parliament, we read language that passed between Senator Miller and the Hon. Mr. McDougall and between the Hon. Mr. Mitchell and a Mr. Mark, that was anything but edifying.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

TRAVELERS' INSURANCE COMPANY.—The attention of our readers is called to the Travelers' Insurance Company, of Hartford, Conn. The head agency for the Maritime Provinces, Prince Edward Island and Newfoundland, is now established in Halifax, under the management of Mr. J. D. Wells. The Travelers' is the only Company on this Continent writing general accident policies.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Saturday, April 29. The Deceased Contract Bill was read a third time and passed, and the Deceased Contract Bill was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

A Bill to authorize the citizens of Charlottetown to raise a further sum of money for purposes therein mentioned, was then read a second time, and passed through the several stages without amendment.

Hon. Mr. HAYTHORN said he would not press his motion, but would move the second reading of the Bill to-morrow, at ten o'clock.

Late Telegrams.

LONDON, APRIL 19. Paris dates are yesterday. The delegates of the party of order refused to recognize the intelligence of the Commune, or enter into any negotiations for a truce, peace, or even an armistice.

Paris has been fired into Paris and caused great damage. Shells are continuing to fall, and houses property of the value of two millions francs has already been destroyed.

PARIS, APRIL 20. The Commune has razed the buildings from Rue de Broderie, under Broderie, one kilometer. The supply of milk is scarce. The price of provisions is rising.

A despatch from Versailles to Paris says that all the prisoners taken by the Government troops, have been sent to Paris to be confined in the Military Prisons there.

LONDON, APRIL 21. A despatch from Versailles to Paris says that all the prisoners taken by the Government troops, have been sent to Paris to be confined in the Military Prisons there.

PARIS, APRIL 17. Paris despatches received here, claim the report of the Government troops in a severe engagement which took place on Saturday.

PARIS, APRIL 17. Paris despatches received here, claim the report of the Government troops in a severe engagement which took place on Saturday.

PARIS, APRIL 19. The Insurgents met a severe defeat on Monday. They admit a repulse at Neuilly, but claim a victory at Issy and Clamart.

PARIS, APRIL 19. Despatches from Versailles state that the fight around Neuilly, which began on Monday, was renewed on Tuesday, and was fought with desperate all day.

PARIS, APRIL 19. Despatches from Versailles state that the fight around Neuilly, which began on Monday, was renewed on Tuesday, and was fought with desperate all day.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.

TO THE EDITOR OF THE HERALD.
Sir, Having lately become a subscriber to your paper, I must say that I am well pleased with its tone. A journal such as yours is a valuable acquisition to our Colonial press.